

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने हेल्थ केयर एमरजेंसी घोषित की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (22 जनवरी, 2020) – आज काउंसिल में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने सर्वसम्मति से ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर एमरजेंसी (Health Care Emergency) घोषित करने का प्रस्ताव पास किया।

यह प्रस्ताव सिटी काउंसिलर हरकीरत सिंह (Harkirat Singh) द्वारा पेश किया गया था और मेयर पैट्रिक ब्राउन व सभी काउंसिलर्स ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विचार करने का मत दिया गया था:

- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए हेल्थ केयर एमरजेंसी घोषित की जाए; और
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे तत्काल सुरक्षित व अच्छी किस्म की रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए पूरे स्टाफ और संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं, ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल (Brampton Civic Hospital) और पील मैमोरियल सेंटर (Peel Memorial Centre) को तत्काल सबसे प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी फंडिंग के अनुदान के लिए, सी.ए.ओ. (CAO) और सिटी के उपयुक्त स्टाफ को विलियम ओस्लर हेल्थ सिस्टम (डबल्यू.ओ.एच.एस.) (William Osler Health System) (WOHS), ओनटैरियो प्रांत व कैनेडा सरकार के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया जाए; और
- सी.ए.ओ. और सिटी के उपयुक्त स्टाफ को विलियम ओस्लर हेल्थ सिस्टम (डबल्यू.ओ.एच.एस.), ओनटैरियो प्रांत व कैनेडा सरकार के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया जाए ताकि एमरजेंसी डिपार्टमेंट सुनिश्चित तौर पर सुचारू रूप से चल पाए और यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के बिस्तरों की संख्या, प्रांतीय औसतन प्रति व्यक्ति के समान है, अतिरिक्त अस्पताल बिस्तरों के साथ उपयुक्त भर्तीरोगी सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए। प्रांतीय सरकार से इस मौजूदा अध्यादेश को पूरा करने के लिए, पील मैमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) के फेज 2 के विकास में पील मैमोरियल सेंटर में अतिरिक्त 800 बिस्तरों की आवश्यकता है; और
- इस स्वीकृत प्रस्ताव की एक प्रति मिनिस्टर ऑफ हेल्थ (Minister of Health), प्रांतीय पार्लियामेंट के ब्रैम्पटन के सभी सदस्यों, ऑफिस ऑफ द प्रीमियर, विपक्षी पार्टियों के सभी प्रांतीय पार्लियामेंट लीडरों, फेडरल पार्लियामेंट के ब्रैम्पटन के सभी सदस्यों, विलियम ओस्लर हेल्थ सिस्टम में अध्यक्ष और सी.ई.ओ. (CEO), ब्रैम्पटन/एटोबीको (Etobicoke) और एरिया ओनटैरियो हेल्थ टीम (Area Ontario Health Team) और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) को भेजी जाए।

दिसंबर में, काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें ब्रैम्पटन के स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम की विशेष और तत्काल आवश्यकताओं की पहचान की गई, जिनमें शामिल हैं, बड़े फंडिंग अंतराल, लंबा प्रतीक्षा समय और गलियारे में रोगियों का इलाज करना। प्रस्ताव में स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम के सभी प्रदाताओं द्वारा तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

सिटी ने ब्रैम्पटन के स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम के लिए अधिक फंडिंग और समर्थन का अनुरोध करने के लिए कई पहलकदमियों पर काम किया है। इनमें शामिल हैं, फेडरेशन ऑफ कैनेडियन म्युनिसिपल्टीज (Federation of Canadian Municipalities) और एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज ऑफ ओनटैरियो (Association of Municipalities of Ontario) के वार्षिक सम्मेलनों में प्रांतीय और संघीय प्रतिनिधियों को पेश करना, सरकार के दोनों स्तरों के लिए आगामी पूर्व-बजट प्रस्तुति के द्वारा प्रांतीय और संघीय सरकारों का समर्थन करना और ब्रैम्पटन की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता और समर्थन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के समर्थन वाले अभियान #FairDealForBrampton का प्रचार करना।

अभी तक, #FairDealForBrampton अभियान (#FairDealForBrampton campaign) को ब्रैम्पटन और अन्य म्युनिसिपल्टीज के बीच स्वास्थ्य देखभाल संबंधी फंडिंग के अंतराल को दूर करने, पील मैमोरियल सेंटर में सुविधाओं व सेवाओं का विस्तार करने के लिए सहयोग और

ब्रैम्पटन में तीसरी स्वास्थ्य देखभाल फेसिलिटी के लिए फंडिंग प्रदान करने के लिए प्रांत की एक याचिका पर 18,000 निवासियों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं।

हवाले

“ब्रैम्पटन के स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम को प्रांतीय सरकार द्वारा फंडिंग और सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल की ओर से, हम चुपचाप ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। हमने ब्रैम्पटन में अधिकारक तौर पर हेल्थ केयर एमरजेंसी घोषित कर दी है। हम स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम के सभी प्रदाताओं से, हमारे समुदाय की तत्काल आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए तुरंत कार्रवाई और प्रतिक्रिया करने का अनुरोध कर रहे हैं।”

- मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown)

“कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले बड़े शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन निष्पक्ष व उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल का हकदार है। शहर के एकमात्र अस्पताल में रोगी गलियारों में मर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी स्वास्थ्य देखभाल को लेकर इन्साफ की मांग करें। साथ ही, अत्यंत भीड़ वाले और कम फंड वाले गलियारे में लोगों का इलाज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करें। ब्रैम्पटन और प्रतीक्षा नहीं कर सकता!”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज

“आज इस प्रस्ताव को पेश करना बेहद आवश्यक था। ब्रैम्पटन के अस्पताल के गलियारे में इलाज और अत्यंत भीड़ को इस मिसाल के तौर पर लगातार इस्तेमाल किया जाता है कि स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संकट राष्ट्रीय तौर पर कैसा लगता है। ब्रैम्पटन अपने उचित हिस्से का हकदार है। हमारे निवासी उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्राप्त करने के बुनियादी अधिकार के हकदार हैं।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड 9 व 10

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca